

PRODUCTS INDEX

ZEYL
Zoom Ever Your Life




SUPPLEMENT LINE




IWell[®]
— INDIA —

PRODUCTS EVALUATION



The Food and Drug Administration (FDA) asked the Institute of Medicine to propose a safety framework that would assist it in overseeing the safety of dietary supplement ingredients. In an ideal situation, FDA would be able to immediately undertake a full safety evaluation for every supplement ingredient. Since this is not possible, a process must be implemented to determine which supplement ingredients warrant the highest priority for review.

This report outlines a three-step framework for considering the safety of dietary supplement ingredients. The first two steps in the process, “screening/flagging” and “priority setting,” are designed to categorize dietary supplement ingredients based on theoretical or possible concern, and therefore the immediacy of the need for in-depth evaluation of safety, the third step of the process.



For the purposes of describing the proposed process, it is convenient to think of the overall framework as three distinct phases, separating the screening and priority-setting phases into two distinct steps in the framework, with the third step being a critical in-depth review. The first step in the process, screening/flagging, is essentially a beginning point that incorporates the factors that will bring an ingredient to the attention of FDA and will indicate whether the material should immediately be examined more closely. This step is important because it is not feasible initially to research the information necessary for priority setting for the entire universe of dietary supplement ingredients. Over time, it is likely that steps one and two will be viewed as one ongoing system.

WHY & WHAT HERBAL MEDICINE

The idea behind food supplements, also called dietary or nutritional supplements, is to deliver nutrients that may not be consumed in sufficient quantities. Food supplements can be vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, and other substances delivered in the form of pills, tablets, capsules, liquid, etc. Supplements are available in a range of doses, and in different combinations. However, only a certain amount of each nutrient is needed for our bodies to function, and higher amounts are not necessarily better. At high doses, some substances may have adverse effects, and may become harmful. For the reason of safeguarding consumers' health, supplements can therefore only be legally sold with an appropriate daily dose recommendation, and a warning statement not to exceed that dose.



भोजन की खुराक, जिसे आहार या पोषण संबंधी पूरक भी कहा जाता है, के पीछे विचार पोषक तत्वों को वितरित करना है, जो पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं किया जा सकता है। भोजन की खुराक विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और अन्य पदार्थ हो सकते हैं जो गोलियों, गोलियों, कैप्सूल, तरल, आदि के रूप में दिए जाते हैं, पूरक खुराक की एक सीमा में और विभिन्न संयोजनों में उपलब्ध हैं। हालांकि, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए प्रत्येक पोषक तत्व की केवल एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, और उच्च मात्रा आवश्यक नहीं है कि बेहतर हो। उच्च खुराक पर, कुछ पदार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और हानिकारक हो सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, पूरक को केवल कानूनी तौर पर एक उचित दैनिक खुराक की सिफारिश के साथ बेचा जा सकता है, और उस खुराक से अधिक नहीं होने के लिए एक चेतावनी बयान।

NICE-9

FOR IMMUNE & SUPER ANTIOXIDANT



NICE-9 is a Stem cells are undifferentiated biological cells that can differentiate into specialized cells and can divide to produce more stem cells. They are also called replacement cells. Your body uses stem cells to replace damaged, old or dying cells. Its no surprise that NICE-9 are vital to the future of anti-aging factors, but their benefits go much, much deeper. From healthy hearts to beautiful skin, NICE-9 have the power to thrust us into aging healthy and beautifully.

NICE-9 एक स्टेम कोशिकाएँ हैं जो बिना किसी नियोजित जैविक कोशिकाओं के हैं जो विशेष कोशिकाओं में अंतर कर सकती हैं और अधिक स्टेम कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए विभाजित कर सकती हैं। उन्हें प्रतिस्थापन कोशिकाएँ भी कहा जाता है। आपका शरीर क्षतिग्रस्त, पुरानी या मरने वाली कोशिकाओं को बदलने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि एनआईसीई -9 एंटी-एजिंग कारकों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लाभ बहुत अधिक, बहुत गहरे जाते हैं। स्वस्थ दिलों से लेकर खूबसूरत त्वचा तक, NICE-9 में हमें स्वस्थ और खूबसूरती से उम्र बढ़ने में बल मिलता है।

USE- 15 ML Once or Twice in day, or as advisable your dietician Experts .

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products

please talk with our health expert.

USE- 15 एमएल एक बार या दिन में दो बार, या अपने आहार विशेषज्ञ से सलाह के रूप में।

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



BE+VE

FOR SUPER ANTIOXIDANT & IMMUNE BOOSTER



BEVE contain naturally occurring antioxidant compounds that can stabilize highly reactive, potentially harmful molecules called free radicals. Free radicals are generated during normal cellular metabolism and result from the metabolism of certain drugs or xenobiotics. Exposure to UV light, cigarette smoke, and other environmental pollutants also increases the body's free radical burden. The harmful activities of free radicals are associated with damage to membranes, enzymes, and DNA. Clinical trials have found that antioxidant supplementation can significantly improve certain immune responses. Specifically, supplementation with BEVE which made from 198 fruits berries and vegetables.

BEVE में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, संभावित हानिकारक अणुओं को मुक्त कणों को स्थिर कर सकते हैं। मुक्त सेलुलर सामान्य सेलुलर चयापचय के दौरान उत्पन्न होते हैं और कुछ दवाओं या xenobiotics के चयापचय के परिणामस्वरूप होते हैं। यूवी प्रकाश, सिगरेट के धुएं, और अन्य पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क में आने से भी शरीर का मुक्त कण बढ़ता है। मुक्त कणों की हानिकारक गतिविधियां झिल्ली, एंजाइम और डीएनए नैदानिक परीक्षणों की क्षति से जुड़ी हैं, जिसमें पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट पूरकता कुछ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में काफी सुधार कर सकती है। विशेष रूप से, BEVE के साथ पूरक जो 198 फ्रूट्स बेरीज और सब्जियों से बना है।

USE- 30ML Once or, or as advisable your dietician Experts .

SIDE EFFECTS: None


NOTE: Asking more about details this products

please talk with our health expert.



CARECELL

FOR AUTO IMMUNE SYSTEMS



An anticarcinogen is a substance that counteracts the effects of a symptoms carcinogen or inhibits the development of cancer cells. Anticarcinogens are different between from anticarcinoma agents in that anticarcinoma agents are few used to selectively destroy or inhibit cancer cells after cancer has developed. CARECELL is the right supplement it made from Curcumin has been used in traditional Indian medicine for many centuries for its anti-inflammatory and anti-carcinogenic properties.

एक एंटीकार्सिनोजेन एक पदार्थ है जो एक कैंसरजन के प्रभावों का प्रतिकार करता है या कैंसर के विकास को रोकता है। एंटीकार्सिनोजेन एंटीकार्सिनोमा एजेंटों से अलग हैं जिसमें कैंसर के विकसित होने के बाद एंटीकार्सिनोमा एजेंटों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से नष्ट या बाधित करने के लिए किया जाता है। CARECELL एक सही पूरक है जिसे Curcumin से बनाया गया है इसका उपयोग कई सदियों से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में इसके विरोधी भड़काऊ और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुणों के लिए किया जाता है।



USE- 15 ML Once or Twice in day, or as advisable your dietician Experts .

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products

please talk with our health expert.

USE- 15 एमएल एक बार या दिन में दो बार, या अपने आहार विशेषज्ञ से सलाह के रूप में।

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।

CURCUMIN

FOR AUTO IMMUNE DISORDER



Turmeric and especially its most active compound curcumin have many scientifically-proven health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's and cancer. It's a potent anti-inflammatory and antioxidant and may also help improve symptoms of depression and arthritis but turmeric is said to reduce the inflammation associated with obesity. Thus, it can give your weight loss plan a boost.

हल्दी और विशेष रूप से इसके सबसे सक्रिय यौगिक curcumin में कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि हृदय रोग, अल्जाइमर और कैंसर को रोकने की क्षमता। यह एक शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सिडेंट है और अवसाद और गठिया के लक्षणों को सुधारने में भी मदद कर सकता है लेकिन हल्दी को मोटापे से जुड़ी सूजन को कम करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार, यह आपके वजन घटाने की योजना को बढ़ावा दे सकता है।



USE- 1 Capsule Once or Twice in day, or as advisable your dietician Experts .

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 Capsule दिन में एक बार या दो बार, या अपने विशेषज्ञ से सलाह के रूप में।

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।

LIVER

FOR HEPATOBIILARY SUPPLEMENT



The liver's main job is to filter the blood coming from the digestive tract, before passing it to the rest of the body. The liver also detoxifies chemicals and metabolizes drugs. As it does so, the liver secretes bile that ends up back in the intestines. In some people, the symptoms of cirrhosis may be the first signs of liver disease. Water may build up in your legs and/or abdomen. Your skin and eyes may take on a yellow color, a condition called jaundice. In blood vessels leading to your liver, the blood may back up because of blockage. LIVER supplement can manage all in the primary symptoms.

लीवर का मुख्य काम पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को छानना है, इसे शरीर के बाकी हिस्सों में भेजने से पहले। जिगर रसायनों को भी detoxify करता है और दवाओं को मेटाबोलाइज़ करता है। जैसा कि ऐसा होता है, यकृत पित्त को आंतों में वापस सावित करता है। कुछ लोगों में, सिरोसिस के लक्षण यकृत रोग के पहले लक्षण हो सकते हैं। पानी आपके पैरों और / या पेट में निर्माण कर सकता है। आपकी त्वचा और आँखें पीले रंग की हो सकती हैं, पीलिया नामक एक स्थिति। आपके जिगर में जाने वाली रक्त वाहिकाओं में, रुकावट के कारण रक्त वापस आ सकता है। LIVER पूरक प्राथमिक लक्षणों में सभी का प्रबंधन कर सकता है।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts


SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।




ORTHOBOSS

FOR BONE AND JOINT SUPPLEMENT



Many people deal with chronic joint pain in their knees, Ankle hands, elbows, shoulders, and elsewhere. In most cases, this is caused by the most common type of arthritis, osteoarthritis. But which ones actually work? Here's a look at 9 of the best options and what the existing research says about them. ORTHOBOSS most popular supplements for treating pain, Clinical studies have shown that boswellia extracts improve pain symptoms more than a placebo in people with osteoarthritis.

बहुत से लोग अपने घुटनों, हाथों, कोहनी, कंधे और अन्य जगहों पर पुराने जोड़ों के दर्द से निपटते हैं। ज्यादातर मामलों में, यह सबसे आम प्रकार के गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। लेकिन वास्तव में कौन से काम करते हैं? यहां सबसे अच्छे विकल्पों में से 9 पर नज़र है और मौजूदा शोध उनके बारे में क्या कहता है। दर्द के इलाज के लिए सबसे लोकप्रिय सप्लीमेंट्स ORTHOBOSS, क्लिनिकल स्टडीज से पता चला है कि बोसवेलिया अर्क ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्लेसबो की तुलना में दर्द के लक्षणों को बेहतर बनाता है।



USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।

CARDIO

FOR CARDIAC SUPPLEMENT



Your heart never takes a break. It's hard at work even while you sleep and pulls double duty during stressful moments and intense workouts. You can carry on without some organs, but the heart certainly isn't one of them. CARDIO can bring overwhelming amounts of information aimed at helping us get healthier through supplements They can be CARDIO is vitamins, minerals, herbs or other plants, amino acids (the individual building blocks of protein), or parts of these substances are protected life time to heart.

आपका दिल कभी छुट्टी नहीं लेता। जब आप सोते हैं तब भी यह कठिन होता है और तनावपूर्ण क्षणों और गहन कसरत के दौरान दोहरे कर्तव्य को खींचता है। आप कुछ अंगों के बिना ले जा सकते हैं, लेकिन दिल निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं है। CARDIO पूरक के माध्यम से हमें स्वस्थ पाने में मदद करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में जानकारी ला सकता है वे हो सकते हैं CARDIO विटामिन, खनिज, जड़ी बूटी या अन्य पौधे हैं, अमीनो एसिड (प्रोटीन के व्यक्तिगत निर्माण खंड), या इन पदार्थों के कुछ हिस्सों के लिए जीवन का समय संरक्षित है दिल।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



CALCIUM

FOR CALCIUM & D3 SUPPLEMENT



Your body needs calcium to build and maintain strong bones. Over 99% of the calcium in your body is stored in your bones and teeth. In the bloodstream, it's used to send nerve signals, release hormones like insulin and regulate how muscles and blood vessels contract and dilate. It's so important that if you don't get the recommended amount in your diet, your body will take it from your skeleton and teeth to use elsewhere, weakening your bones.

आपके शरीर को मजबूत हड्डियों को बनाने और बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आपके शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम आपकी हड्डियों और दांतों में जमा हो जाता है। रक्तप्रवाह में, यह तंत्रिका संकेतों को भेजने, इंसुलिन जैसे हार्मोन जारी करने और मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को कैसे संकुचित और पतला करता है, इसका उपयोग करता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपको अपने आहार में अनुशंसित मात्रा नहीं मिलती है, तो आपका शरीर आपकी हड्डियों को कमजोर करने के लिए इसे आपके कंकाल और दांतों से कहीं और उपयोग करने के लिए ले जाएगा।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts


SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



SPIRILUNA

FOR SEA MINERAL SUPPLEMENT



Spirulina is known as a nutrient packed full of vitamins, including vitamins A, C, E and B vitamins, as well as a whole host of minerals such as calcium, magnesium, zinc and selenium. In particular, vitamin C and selenium are both antioxidants and help protect our cells and tissues from damage. Most of the studies that have been conducted to date have been either on animals or in small human trials, so more there has been some research into the benefits of spirulina and its positive effects on blood glucose levels.

स्पिरुलिना को विटामिन ए, सी, ई और बी विटामिन सहित विटामिन से भरा एक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता और सेलेनियम जैसे खनिजों की एक पूरी मेजबान भी है। विशेष रूप से, विटामिन सी और सेलेनियम दोनों एंटीऑक्सिडेंट हैं और हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। अधिकांश अध्ययन जो आज तक किए गए हैं वे या तो जानवरों पर या छोटे मानव परीक्षणों में हुए हैं, इसलिए अधिक स्पाइरुलिना के लाभों और रक्त शर्करा के स्तर पर इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में कुछ शोध हुए हैं।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपनं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



NONI

FOR DAILY SUPPLEMENTS



The noni plant, native to Asia, Australia, and the islands of Polynesia, health problems such as diabetes, high blood pressure, aches, pains, burns, arthritis, inflammation, tumors, the effects of aging, and parasitic, viral, and bacterial infections. Ancient healing manuscripts cite the fruit as a primary ingredient in natural healing formulations.

नोनी संयंत्र, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया के द्वीपों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दर्द, दर्द, जलन, गठिया, सूजन, ट्यूमर, उम्र बढ़ने के प्रभाव, और परजीवी, वायरल और बैक्टीरियल जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए। संक्रमण। प्राचीन चिकित्सा पांडुलिपियों प्राकृतिक चिकित्सा योगों में एक प्राथमिक घटक के रूप में फल का हवाला देते हैं।



USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।

GREEN COFFEE

FOR DAILY DETOX



Losing weight can be incredibly difficult. For this reason, people have turned to all sorts of supplements in order to make things easier. Green Coffee Bean Extract is one of them. It is currently among the world's most popular weight loss supplements. As the name implies, this supplement is extracted from green coffee beans. It contains a substance called Chlorogenic Acid, which is believed to be responsible for the weight loss effects.

वजन कम करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। इस कारण से, लोगों ने चीजों को बनाने के लिए सभी प्रकार के पूरक की ओर रुख किया है। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट उनमें से एक है। यह वर्तमान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय वजन घटाने की खुराक में से एक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पूरक ग्रीन कॉफी बीन्स से निकाला जाता है। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड नामक एक पदार्थ होता है, जो वजन घटाने के प्रभावों के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

उपयोग- 1 कैप्सूल दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



HE-1

FOR TOTALLY SUPPLEMENTS FOR MEN



HE-1 Tablet is a highly popular multi-vitamin health supplements in India. It fulfills the daily requirement of nutrients in order to provide a healthy and an energetic body. It is a rich blend of various essential vitamins and minerals that keep you charged throughout the day. It improves your digestion, elevates your appetite and enhances the metabolism of your body to keep you fit. Your organs functions better and acquires superior immunity against common illnesses.

HE-1 टैबलेट भारत में एक अत्यधिक लोकप्रिय मल्टी-विटामिन स्वास्थ्य पूरक है। यह स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करता है। यह विभिन्न आवश्यक विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध मिश्रण है जो आपको पूरे दिन चार्ज रखता है। यह आपके पाचन में सुधार करता है, आपकी भूख को बढ़ाता है और आपको फिट रखने के लिए आपके शरीर के चयापचय को बढ़ाता है। आपके अंग बेहतर कार्य करते हैं और सामान्य बीमारियों के खिलाफ बेहतर प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this products please talk with our health expert.

USE- 1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



SHE-1

FOR TOTALLY SUPPLEMENTS FOR WOMEN



SHE-1 has been created to keep the bones of women healthy. is a health supplement tablet .It has anti-ageing properties and strengthens body resistance or immunity. SHE-1 reducing thyroid hormone and killing fungus, bacteria and other microorganisms; producing red blood cells as well as transporting oxygen in the body; relaxing the muscles and nerves during stress; facilitating the synthesis of proteins and DNA in the cartilage.

महिलाओं की हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए SHE-1 बनाया गया है। एक स्वास्थ्य पूरक टैबलेट है। इसमें एंटी-एजिंग गुण होते हैं और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। SHE-1 थायराइड हार्मोन को कम करने और कवक, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को मारने; लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन; तनाव के दौरान मांसपेशियों और नसों को आराम; उपास्थि में प्रोटीन और डीएनए के संश्लेषण की सुविधा।

USE- 1 Tablet Twice or Thrice in day, or as advisable your Health Experts

SIDE EFFECTS: None

NOTE: Asking more about details this product please talk with our health expert.

USE-1 टैबलेट दिन में दो बार या तीन बार, या अ स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार

साइड इफेक्ट्स: कोई नहीं

नोट: इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें।



REMIND IT

- 1- Wake before sun rise and sleep before 10 pm .
- 2- Daily wake after morning drink 2-3 glass hot water.
- 3- Dont drink markets Alkaline water , You have natural alkaline in hot water .
- 4- Be active any way dont proceed to lazy in mind .
- 5- Try to eat ever slowly, and taken hot food without fatty .
- 6- Daily before eat drink small water, and eating middle again drink little water, and after eat taken plenty water .
- 7- Take your thinking ever possitive, because yours thinking can bring your health wealth.
- 8- Every body real and soul is possitive , so never think bad for each other.
- 9- Beat the hidden fear in the heart, and wake up the God sitting in your mind, then you can become self-made and physical health wealth making life very exciting.

इसे याद रखें

- 1- सूरज उगने से पहले उठें और रात 10 बजे से पहले सो जाएं।
- 2- रोजाना सुबह उठने के बाद 2-3 गिलास गर्म पानी पिएं।
- 3 - अलकलाइन पानी बाजार में न पिएं, आपके पास गर्म पानी में प्राकृतिक क्षार है।
- 4- किसी भी तरह से सक्रिय रहें मन में आलस्य करने के लिए आगे न बढ़ें।
- 5- कभी भी धीरे-धीरे खाने की कोशिश करें, और बना वसायुक्त गर्म भोजन लें।
- 6- रोजाना खाने से पहले थोड़ा पानी पीएं, और बीच-बीच में खाने से थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए, और बाद में खूब पानी पीना चाहिए।
- 7- अपनी सोच को कभी भी सकारात्मक समझें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी स्वास्थ्य सम्पदा ला सकती है।
- 8- हर शरीर वास्तविक और आत्मा प्रतगामी होता है, इसलिए कभी भी एक-दूसरे के लिए बुरा मत सोचो।
- 9- दिल में छपि डर को मारो, और अपने मन में बैठे ईश्वर को जगाओ, तो तुम स्व-नर्मित और शारीरिक स्वास्थ्य सम्पदा बन सकते हो, जिससे जीवन बहुत रोमांचक हो जाएगा।



"DR S N SHARMA"